



निविदा सूचनासं: वीईसीसी/एमएस एमजी/2026/एमएसएसडी/001/552

दिनांक: 13/04/2026

Tender Notice. No: VECC/MS&MG/2026/MSSD/001/552


Date: 13/04/2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख, एम एस एंड एम जी, वीईसी केंद्र, 1/ए एफ, विधान नगर, कोलकाता - 700064, संलग्न विनिर्देशों के अनुसार कार्टिज हीटर की आपूर्ति के लिए दिनांक **20.04.2026** को **17.30** बजे तक स्पॉट कोटेशन आमंत्रित करते हैं। यह कोटेशन दिनांक **21.04.2026** को **11:00** बजे खोला जाएगा।

Head MS&MG, VEC Centre, 1/AF, Bidhan Nagar, Kolkata - 700064 on behalf of the President of India invites SPOT QUOTATIONS up to **17.30 Hrs. on 20.04.2026** for the supply of the cartridge heaters as per **attached specifications**. The quotations which will be opened at **11:00 Hrs. on 21.04.2026**

निर्धारित तिथि और समय के भीतर विनिर्देशों वाले प्रासंगिक कैटलॉग पृष्ठों और भरे हुए अनुलग्नक-II के साथ कोटेशन एक सीलबंद लिफाफे में प्रमुख, एम एस & एम जी, वीईसीसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।

Quotations along with relevant catalogue pages containing the specifications and filled Annexure-II shall be submitted in a sealed envelope to office of the Head, Materials Science and Medical Group, VECC within stipulated date and time.

  
13/04/2026  
(हस्ताक्षर /Signature)

Head, MS&MG/ प्रमुख, एम एस एम जी



## **Annexure-I**

### **Technical Specification of Cartridge heater**

**Ref No: VECC/MS&MG/2026/MSSD/552 dated 13-04-2026**

**1. Cartridge heater for high temperature application**

**Qty:6 Nos**

- a. Sheath material : Incoloy
- b. End disc material : Incoloy
- c. Insulation type: High density MgO
- d. Max. Operating Temperature: Greater than or equal to 850°C
- e. Length: 25.4 mm +/- 0.2
- f. Diameter: 6.25 mm +/- 0.05
- g. Voltage : 120 V
- h. Wattage: 150 W ±10%
- i. Lead wire heat resistance temperature: greater than or equal to 200°C

**2. Evaluation criteria:**

- a. The offer shall be supported by a manufacturer's original catalogue/datasheet of the quoted cartridge heater.
- b. Vendor should fill, sign and stamp annexure-II and submit it along with the offer.

**3. Acceptance criteria:**

- a. Each cartridge heater shall be subjected to inspection and testing after delivery. The tests shall include visual inspection, resistance measurement and functional heating test with maximum current and voltage rating before acceptance.

**Annexure-II**

**(To be filled, signed and stamped by vendor)**

**Ref No: VECC/MS&MG/2026/MSSD/552 dated 13-04-2026**

<b>Sr No</b>	<b>Required specification</b>	<b>Offered value/Vendors reply</b>	<b>Any deviation</b>
1	Make and Model		
2	Quantity		
3	Sheath material		
4	End disc material		
5	Insulation type		
6	Max. Operating Temperature		
7	Length		
8	Diameter		
9	Voltage		
10	Wattage		
11	Lead wire heat resistance temperature		
Evaluation criteria			
1	Whether catalogue submitted		
Acceptance Criteria			
1	Whether agreed with acceptance criteria		